

आपकी सदस्य पुस्तिका को प्रबंधित दीर्घकालिक देखभाल (Managed Long Term Care, MLTC) योजना में नए सदस्यों और योजना छोड़कर दोबारा दाखिला लेने वाले मौजूदा सदस्यों के लिए अद्यतन पात्रता मानदंडों को शामिल करने के लिए बदल दिया गया है।

1 सितंबर, 2025 से शुरू होने वाले नए नामांकन के लिए, MLTC आंशिक पूंजीकरण (MLTC Partial Capitation, MLTCP) योजना में शामिल होने के लिए MLTC कार्यक्रम की पात्रता मानदंडों के अनुसार, किसी व्यक्ति का मूल्यांकन 120 दिनों से अधिक समय के लिए सामुदायिक आधारित दीर्घकालिक सेवाओं और सहायता (Community Based Long Term Services and Supports, CBLTSS) की आवश्यकता वाला होना चाहिए, साथ ही निम्नलिखित न्यूनतम आवश्यकताएँ भी पूरी करनी होंगी:

- दैनिक जीवन की दो से अधिक गतिविधियों (Activities of Daily Living, ADL) में शारीरिक संचालन के लिए कम से कम सीमित सहायता की आवश्यकता हो; या
- जिन व्यक्तियों में मनोभ्रंश (डिमेंशिया) य अल्ज़ाइमर रोग का निदान किया गया है, और जिनका मूल्यांकन दैनिक जीवन की एक से अधिक गतिविधियों (ADL) में कम से कम पर्यवेक्षण की आवश्यकता वाला हो।

यदि आपने 1 सितंबर, 2025 से पहले किसी भी MLTC योजना में नामांकन किया था, तो जब तक आप किसी भी MLTC योजना में लगातार नामांकित रहते हैं, आपको पुनर्मूल्यांकन के समय नए न्यूनतम आवश्यकता मानदंडों के अधीन नहीं होना पड़ेगा। यदि आप MLTC कार्यक्रम छोड़ देते हैं और फिर से इसमें शामिल होना चाहते हैं, तो आपको उस समय MLTC नामांकन के लिए लागू पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा जब आप दोबारा शामिल होते हैं।

यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया Aetna Better Health of New York की सदस्य सेवाओं को 855-456-9126 (TTY:711) पर कॉल करें।